

Q/221/21

M.A. I SEMESTER (Main/ATKT) EXAMINATION, DECEMBER-2021

भूगोल /Geography

PAPER - I

**भू आकृति विज्ञान
Geomorphology**

Time : Three hours

Maximum Marks : 40

Minimum Marks : 14

Note : सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक खण्ड में निर्धारित अंक दर्शाए गए हैं।
All Questions are compulsory. Allotted marks are shown in each Section

खण्ड 'अ' Section 'A'

वस्तुनिष्ठ प्रश्न

Objective Type Questions

1x5 = 05

Q.1 सही उत्तर चुनिए –

Choose the Correct Answer -

(i) भू आकृति विज्ञान अध्ययन करता है—

Geomorphology studies -

- (a) उचचावच Relief (b) कृषि Agriculture
(c) उद्योग Industries (d) इनमें से कोई नहीं None of these

(ii) 'स्थल रूप संरचना, प्रक्रम तथा समय का प्रतिफल होता है'। यह कथन किसका है—

Landscape is a result of structure, process and time'. Who said this?

- (a) वेगनर Wegener (b) होम्स Homes
(c) डेविस Davis (d) काण्ट Kant

(iii) इनमें से जलवायु परिवर्तन का संकेतक नहीं है—

Which is not a indicator of Climatic change -

- | | |
|----------------------|----------------------------|
| (a) भौमिकीय संकेतक | Geological Indicator |
| (b) विवर्तनिक संकेतक | Tectonic Indicator |
| (c) भू-आकृतिक संकेतक | Geomorphological Indicator |
| (d) उष्मा के संकेतक | Warming Indictors |

(iv) वलन उत्पन्न होता है—

Folding originates by -

- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| (a) संपीडन | Compressive |
| (b) खिंचाव (तनाव) | Tension |
| (c) किरण क्रम | Radial |
| (d) उपरोक्त में से कोई नहीं | None of the above |

(v) हिमालय के उद्भव के लिए जिम्मेदार बल है—

The force responsible for the evolution of Himalayas is -

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| (a) गुरुत्वाकर्षण बल | Gravitational Force |
| (b) संवाहनिक धाराएँ | Convectional Currents |
| (c) संपीडन बल | Compressional Force |
| (d) तनाव बल | Tensional Force |

खण्ड 'ब' Section 'B'

लघु उत्तरीय प्रश्न

Short Answer Type Questions

2x5 = 10

Q.2 भू-आकृति विज्ञान को परिभाषित कीजिए।

Define Geomorphology.

अथवा OR

भू-आकृति विज्ञान के विकास का उल्लेख कीजिए।

Mention the development of Geomorphology

Q/221/21

- Q.3 भू-आकार के अध्ययन की प्रमुख विधियों का उल्लेख कीजिए।
Mention the major methods of the study of Landforms.

अथवा OR

स्थलाकृति क्या है? समझाइये।

What is Landform? Explain.

- Q.4 जलवायु परिवर्तन क्या है?
What is Climatic Change?

अथवा OR

भू-दृश्यावली के निर्माण में जलवायु की भूमिका समझाइये।

Explain the role of climate in the formation of Landscapes.

- Q.5 भू-संचलन क्या है?
What is Earth movements?

अथवा OR

महादेश जनक बल को समझाइये।

Explain Epeirogenic force.

- Q.6 प्लेट विवर्तनिकी क्या है?
What is Plate Tectonics?

अथवा OR

भूकंप के मुख्य कारण बताइये।

Explain the main causes of Earthquakes.

खण्ड 'स' Section 'C'

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

Long Answer Type Questions

5x5 = 25

- Q.7 भू आकृति विज्ञान की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र का वर्णन कीजिए।
Describe the nature and scope of the Geomorphology.

अथवा OR

भू आकृति विज्ञान की अभिनव प्रवृत्तियों का विवरण दीजिए।

Discuss the recent trends of Geomorphology.

- Q.8** पृथ्वी के प्रमुख स्थलाकृति तथा उसकी भौमिकीय संरचना समझाइए।
Explain the major landforms of earth and their geological structure.

अथवा OR

पृथ्वी के प्रमुख भू-स्वरूपों की उत्पत्ति एवं विकास का वर्णन कीजिए।

Describe the origin and evolution of the earth's major forms.

- Q.9** जलवायु परिवर्तनों का पृथ्वी की सतह पर प्रभाव समझाइये।
Explain the impact of climatic changes on the earth's surface.

अथवा OR

जलवायु परिवर्तन से संबंधित भू कालानुक्रमिक विधियों का उल्लेख कीजिए।

Give an account of the Geo-chorological methods related to climatic changes.

- Q.10** भू संचलन के प्रकारों का वर्णन कीजिए।
Discuss the types of earth movements.

अथवा OR

पर्वत निर्माणकारी संचलनों की व्याख्या कीजिए।

Describe the orogenic Movements.

- Q.11** ज्वालामुखी प्रक्रिया क्या है? इससे संबद्ध स्थलरूपों की विवेचना कीजिए।

What is vulcanicity? Discuss the land forms associated with it.

अथवा OR

हिमालय के विकास के संदर्भ में जैविक संरचना की व्याख्या कीजिए।

Explain the organic structure with reference to evolution of Himalayas.

